

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक  
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,  
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान  
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी  
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन  
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

# मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 5]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 29 जनवरी 2010—माघ 9, शक 1931

## भाग ४

विषय-सूची

(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक,	(2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,	(3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक.
(ख) (1) अध्यादेश,	(2) मध्यप्रदेश अधिनियम,	(3) संसद के अधिनियम.
(ग) (1) प्रारूप नियम,	(2) अन्तिम नियम.	

## भाग ४ (क)—कुछ नहीं

## भाग ४ (ख)

मध्यप्रदेश अधिनियम

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 15 जनवरी 2010

शुद्धि-पत्र

क्र. 324-इक्कीस-अ (प्रा.) शुद्धि-पत्र.—“मध्यप्रदेश राजपत्र” (असाधारण), दिनांक 1 मई, 2007 में प्रकाशित किए गए मध्यप्रदेश (लोक अधिकरणों के माध्यम से) दीनदयाल अंत्योदय कार्यक्रम का कार्यान्वयन संशोधन अधिनियम, 2007 (क्रमांक 13 सन् 2007) में नीचे दी गई सारणी के कालम (1) में वर्णित उन शब्दों के स्थान पर जो कि उक्त सारणी के कालम (2) में वर्णित पृष्ठों तथा पंक्तियों में आए हैं, उक्त सारणी के कालम (3) की तत्सम्बद्ध प्रविष्टियों में दिये गये शब्द, पढ़े जाएं:—

## सारणी

अशुद्ध मुद्रित हुए शब्द	राजपत्र के पृष्ठ तथा पंक्तियां जिनमें वे शब्द आए हैं		शुद्ध शब्द जो पढ़े जाएं.
	पृष्ठ	पंक्ति	
(1)	(2)	(3)	
Schedule	438 (2)	12	Scheduled.
Schools	438 (2)	23	Schools,
Vidyuktikaran	438 (2)	26	Vidyutikaran

क्र. 325-इक्कीस-अ-(प्रा.) शुद्धि-पत्र.—“मध्यप्रदेश राजपत्र” (असाधारण), दिनांक 3 अक्टूबर, 2007 में प्रकाशित किए गए मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) अधिनियम, 2007 (क्रमांक 25 सन् 2007) में नीचे दी गई सारणी के कालम (1) में वर्णित उन शब्दों के स्थान पर जो कि उक्त सारणी के कालम (2) में वर्णित पृष्ठों तथा पंक्तियों में आए हैं, उक्त सारणी के कालम (3) की तत्सम्बद्ध प्रविष्टियों में दिये गये शब्द, पढ़े जाएं:—

### सारणी

अशुद्ध मुद्रित हुए शब्द (1)	राजपत्र के पृष्ठ तथा पंक्तियां जिनमें वे शब्द आए हैं		शुद्ध शब्द जो पढ़े जाएं. (3)
	पृष्ठ (2)	पंक्ति	
SANSHODHAN	1012 (2)	4 वीं	(SANSHODHAN)
3rd October, 1972	1012 (3)	6 वीं	3rd October, 2007
air conditioned	1012 (3)	24	air-conditioned
air conditioned	1012 (3)	40	air-conditioned

क्र. 326-इक्कीस-अ-(प्रा.) शुद्धि-पत्र.—“मध्यप्रदेश राजपत्र” (असाधारण), दिनांक 13 अगस्त, 2009 में प्रकाशित किए गए जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2009 (क्रमांक 13 सन् 2009) में नीचे दी गई सारणी के कालम (1) में वर्णित उन शब्दों के स्थान पर जो कि उक्त सारणी के कालम (2) में वर्णित पृष्ठ तथा पंक्ति में आए हैं, उक्त सारणी के कालम (3) की तत्सम्बद्ध प्रविष्टि में दिये गये शब्द, पढ़े जाएं:—

### सारणी

अशुद्ध मुद्रित हुए शब्द (1)	राजपत्र का पृष्ठ तथा पंक्ति जिनमें वे शब्द आए हैं		शुद्ध शब्द जो पढ़े जाएं. (3)
	पृष्ठ (2)	पंक्तियां	
दे सकेगा	798	35	दे सकेगी

क्र. 327-इक्कीस-अ-(प्रा.) शुद्धि-पत्र.—“मध्यप्रदेश राजपत्र” (असाधारण), दिनांक 3 अगस्त, 2009 में प्रकाशित किए गए मध्यप्रदेश वन उपज (व्यापार-विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2009 (क्रमांक 11 सन् 2009) में नीचे दी गई सारणी के कालम (1) में वर्णित उन शब्दों के स्थान पर जो कि उक्त सारणी के कालम (2) में वर्णित पृष्ठ तथा पंक्तियों में आए हैं, उक्त सारणी के कालम (3) की तत्सम्बद्ध प्रविष्टि में दिये गये शब्द, पढ़े जाएं:—

### सारणी

अशुद्ध मुद्रित हुए शब्द (1)	राजपत्र का पृष्ठ तथा पंक्तियां जिनमें वे शब्द आए हैं		शुद्ध शब्द जो पढ़े जाएं. (3)
	पृष्ठ (2)	पंक्तियां	
“भारसाधक अधिकारी को”	782	3-4	“भारसाधक अधिकारी”

राजेश यादव, अपर सचिव.

### भाग 4 (ग)—कुछ नहीं